



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी। प्रेस नोट

दिनांक- 12.08.2022

थाना आदमपुर कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0 90/2022 धारा 380 भादवि (बढ़ोत्तरी धारा-411 भादवि) से सम्बन्धित अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया तथा उनके पास से चोरी के एक लाख सताईश हजार रुपये को बरामद किया।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस उपायुक्त जोन काशी कमिश्नरेट वाराणसी महोदय व श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त जोन काशी कमिश्नरेट वाराणसी महोदय के पर्यवेक्षण व श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली व प्रभारी निरीक्षक थाना आदमपुर श्री अजीत कुमार वर्मा के नेतृत्व में आज दिनांक 12.08.22 को उ0नि0 राहुल रंजन मय हमराह उ0नि0 भरत भट्ट, फैंन्टम 07 के कर्मचारी गण हे0का0 मान सिंह, का0 अशोक के देखभाल क्षेत्र व तालाश वांछित अभियुक्त व विवेचना में आदमपुर चौकी क्षेत्र के दौरान मुखबीर सूचना पर मु0अ0सं0 90/2022 धारा 380 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण को रेलवे डाट पुल के नीचे से अभियुक्तगण 1. निकेश पुत्र गणेश पता प्रहलादघाट, थाना आदमपुर कमि0 वाराणसी उम्र करीब 20 वर्ष 2. मनोज पाण्डेय पुत्र राममोहन पाण्डेय पता प्रहलादघाट आदमपुर वाराणसी उम्र करीब 20 वर्ष 3. राजकुमार पुत्र लालजी पता भदऊ चुंगी हरिजन बस्ती थाना आदमपुर वाराणसी उम्र करीब 19 वर्ष को समय करीब 09.15 बजे गिरफ्तार किया गया। जिनके पास से क्रमशः इक्तालीश हजार (41,000/) रुपया, सैतालीश हजार (47000/) रुपया व उन्तालीस हजार (39000/) रुपया बरामद हुआ। फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी। थाना आदमपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान –

दिनांक 12.08.2022 समय 09.15 A.M. बजे गिरफ्तारी का स्थान रेलवे डाट पुल के नीचे थाना आदमपुर वाराणसी।

नाम व पता अभियुक्तगण -

1. निकेश पुत्र गणेश पता प्रहलादघाट, थाना आदमपुर कमि0 वाराणसी उम्र करीब 20 वर्ष
2. मनोज पाण्डेय पुत्र राममोहन पाण्डेय पता प्रहलादघाट आदमपुर वाराणसी उम्र करीब 20 वर्ष
3. राजकुमार पुत्र लालजी पता भदऊ चुंगी हरिजन बस्ती थाना आदमपुर वाराणसी उम्र करीब 19 वर्ष

बरामदगी माल – एक लाख सताईश हजार (1,27,000) रु0 नगद

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 श्री राहुल रंजन चौकी प्रभारी आदमपुर थाना आदमपुर वाराणसी।
2. प्रशिक्षु उ.नि. उ0नि0 भरत भट्ट थाना आदमपुर वाराणसी।
3. हे0का0 मान सिंह थाना आदमपुर वाराणसी।
4. का0 विजय शंकर गुप्ता थाना आदमपुर वाराणसी।
5. का0 अशोक थाना आदमपुर वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त,
जोन काशी कमिश्नरेट वाराणसी।